

MINISTRY OF AYUSH COMPILED MEDIA REPORT
25 Dec, 2024 - 26 Dec, 2024

 **Total Mention 89**

 Print	Financial	Mainline	Regional	Periodical
6	1	3	2	N/A

 Online

83

 Print

No	Newspaper	Headline	Edition	Pg
1.	Bizz Buzz	Min releases film on national Ayush mission	Hyderabad	8
2.	The Morning Standard	Fit Bit	Delhi	2
3.	The Morning Standard	To maintain health as I age, suggest exercises or habits to do in my 20s	Delhi	2
4.	The New Indian Express	SALAMBA BHARADVAJASANA	Chennai	2
5.	Navshakti	Ayurveda for a healthy lifestyle!	Mumbai	7
6.	Rashtriya Sahara	vanchit abadi ke liye swasthya seva tak pahuch mai juta aayush mantralay	Delhi	7

Bizz Buzz • 26 Dec • Ministry of Ayush
Min releases film on national Ayush mission

8 • PG

201 • Sqcm

20106 • AVE

N/A • Cir

Middle Right

Hyderabad

Min releases film on national Ayush mission

NEW DELHI

THE National Ayush Mission (NAM) has empowered communities with accessible and cost-effective healthcare based on traditional practices, Prataprao Jadhav, Union Minister of State for Ministry of Ayush, has stressed.

The minister said this while unveiling a film series titled "Ayush for All: Holistic Health Care through National Ayush Mission" in the national capital, showcasing the remarkable progress and transformative impact of the National Ayush Mission.

"This film series is a step towards making information about our initiatives readily accessible to the public, showcasing Ayush's pivotal role in reducing disease burden and promoting wellness across the nation," said Jadhav.

The series highlights real-life stories of transformation, demonstrating how NAM, in collaboration with state and UT governments, has improved healthcare access and reduced out-of-pocket expenditures for rural and underserved populations.

According to the ministry, the NAM aims to strengthen Ayush healthcare services, promote preventive care through Ayushman Aro-



The series highlights real-life stories of transformation, demonstrating how NAM, in collaboration with state and UT governments, has improved healthcare access and reduced out-of-pocket expenditures for rural and underserved populations

gya Mandir (Ayush), and integrate Ayush systems into mainstream public health.

The NAM also emphasises the development of Ayush educational institutions to enhance the quality of education and research. Moreover, the scheme has supported the establishment of 167 Integrated Ayush Hospitals and upgraded 416 Ayush Hospitals and 5036 dispensaries.

Essential Ayush medicines were supplied to 996 hospitals and 12,405 dispensaries each year. NAM also supported 16 new Ayush educational institutions and upgraded 112 others.

Additionally, 3,883 Yoga Wellness Centres, 1,055 Ayush Grams and 12,500 Ayushman Arogya Mandir (Ayush) were established, promoting holistic wellness nationwide, according to the ministry.

According to Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush said, the NAM focuses on strengthening Ayush healthcare services, establishing Ayushman Arogya Mandir (Ayush), and promoting medical pluralism.

"These initiatives are transforming public health and improving access to preventive and promotive care across the nation," he mentioned.

The Morning Standard • 26 Dec • Ministry of Ayush

Fit Bit

2 • PG

620 • Sqcm

297695 • AVE

300K • Cir

Middle Right

Delhi

FITBIT

SALAMBA BHARADVAJASANA

(SUPPORTED BHARADVAJA TWIST POSE)

This supported variation of the foundational yoga pose, Bharadvajasana, (Torso Stretch Pose), is named to pay homage to the sage Bharadvaja, mentioned in various Hindu Scriptures and Texts. This supported version is designed for relaxation and emotional grounding, relieving tension, stress, and fatigue. It becomes restorative, offering a harmonious blend of physical relaxation and emotional calm. It combines the benefits of a spinal twist with the grounding and nurturing qualities of support.

STEPS

- Keep two bolsters handy or grab some cushions or anything similar to use.
- Sit in Dandasana. Position the bolsters horizontally on top of each other at hip level on your right side.
- Turn to your right. Inhale, bend your knees, and bring your feet to the left side.
- Ensure both knees are on the ground. Rest the right knee's outer and left knee's inner sides on the ground. Similarly, the right foot's outer edge and the left's inner edge are on the ground, pointing the toes to the left. Exhale.
- Twist the torso towards the bolsters, lower your body onto the bolsters and rest your cheek on them. The hands are on the ground and the fingers are pointing to the right. Ensure your neck is relaxed.
- Stay here for about six breaths or as per the body's capacity. Close your eyes and breathe.
- Keep your hips evenly on the floor and relax your shoulders.
- Release and return to Dandasana and remain here for a breath or two. Then counter the stretch on the left side, following the instructions above.
- Finally, relax in the Staff Pose Hands Back Knees Bent.

BENEFITS

- Stretches the pelvis slightly and strengthens the lower back.
- Increases the knee and ankle flexibility.
- Works soothingly for the chest, diaphragm, and breath.
- Creates calmness in the heart, lungs, and breathing pattern.
- Brings focus on breathing.
- It also calms the muscles of the body.
- Those who have undergone shoulder surgery or had prolonged illnesses like jaundice or typhoid can use this as a therapy.
- People facing cervical spondylitis may witness improvement.
- Releases the happy hormones (serotonin and endorphins).
- Balances the emotions of an individual.
- Can be done by teenagers, kids, and postnatal women.
- Sports persons can do it after rigorous practice, especially athletes.

LIMITATIONS

- People with knees, ankle, or hip injuries and surgeries, weak ankles, or knees, acute asthma or chronic heart problems, avoid this practice.
- Pregnant women and senior citizens can do this pose.



By N Elumalai, PhD Scholar (Yoga Science) at
Meenakshi Academy of Higher Education & Research, Chennai

The Morning Standard • 26 Dec • Ministry of Ayush
To maintain health as I age, suggest exercises or habits to do in my 20s

2 • PG

271 • Sqcm

130129 • AVE

300K • Cir

Middle Center

Delhi



The expert is a Fit India Movement ambassador and celebrity fitness coach

To maintain health as I age, suggest exercises or habits to do in my 20s.

A well-rounded fitness routine consists of cardio, strength and flexibility exercises.

- Engage in aerobic activities like running, walking, cycling, or swimming for at least 150 minutes a week.
- Incorporate resistance training to build lean muscle mass and bone density. We start losing muscles at age 30. Conserving this muscle mass will help prevent age-related weight gain.



- To maintain flexibility and range of motion, include yoga, pilates, or stretching exercises. Engage in meditation or deep breathing to manage stress and anxiety.
- Focus on consuming a balanced diet by including fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, and healthy fats. Aim for at least eight cups of water a day and get nine hours of sleep every day.
- Avoid smoking and secondhand smoking to reduce your risk of chronic diseases and avoid or consume alcohol in moderation.
- Seek professional help for diet, nutrition, and workouts.

The New Indian Express • 26 Dec • Ministry of Ayush
SALAMBA BHARADVAJASANA

2 • PG

623 • Sqcm

822530 • AVE

246.4K • Cir

Top Right

Chennai

FITBIT

SALAMBA BHARADVAJASANA

(SUPPORTED BHARADVAJA TWIST POSE)

This pose is a supported variation of the foundational yoga pose, Bharadvajasana (Torso Stretch Pose). It is named to pay homage to the sage Bharadvaja, mentioned in various Hindu Scriptures and Texts. This supported version is designed for relaxation and emotional grounding, relieving tension, stress and fatigue. It becomes restorative, offering a harmonious blend of physical relaxation and emotional calm. It combines the benefits of a spinal twist with the grounding and nurturing qualities of support.

STEPS

- Keep two bolsters handy or grab some cushions or anything similar to use.
- Sit in Dandasana. Position the bolsters horizontally on top of each other at hip level on your right side.
- Turn to your right. Inhale, bend your knees and bring your feet to the left side.
- Ensure both knees are on the ground. Rest the right knee's outer and left knee's inner sides on the ground. Similarly, the right foot's outer edge and the left's inner edge are on ground, pointing the toes to the left. Exhale.
- Twist the torso towards the bolsters and lower your body onto the bolsters and rest your cheek on them. The hands on the ground and the fingers pointing to the right. Ensure your neck is relaxed.
- Stay here for about six breaths or as per the body's capacity. Close your eyes and breathe.
- Keep your hips evenly on the floor and relax your shoulders.
- Release and return to Dandasana and remain here for a breath or two. Then counter the stretch on the left side, following the instructions above.
- Finally, relax in Staff Pose Hands Back Knees Bent.

BENEFITS

- Stretches the pelvis slightly and strengthens the lower back.
- Increases the knee and ankle flexibility.
- Works soothingly for the chest, diaphragm, and breath.
- Creates calmness in the heart, lungs, and breathing pattern.
- Brings focus to breathing.
- It also calms the muscles of the body.
- Those who have undergone shoulder surgery or had prolonged illness like jaundice or typhoid can use this as a therapy.
- People facing cervical spondylitis may see improvement.
- Releases the happy hormones (serotonin and endorphins).
- Balances the emotions of an individual.
- Can be done by teenagers, kids, and postnatal women.
- Sports persons can do it after rigorous practice, especially athletes.

LIMITATIONS

- Students with knees, ankle, or hip injuries and surgeries, weak ankles or knees, acute asthma or chronic heart problems, avoid this practice.
- Pregnant women and senior citizens can do this pose.



By N Elumalai, PhD Scholar (Yoga Science) at
Meenakshi Academy of Higher Education & Research, Chennai

Navshakti • 26 Dec • Ministry of Ayush
Ayurveda for a healthy lifestyle!

7 • PG

113 • Sqcm

22741 • AVE

419.55K • Cir

Middle Center

Mumbai

निरामय जीवनशैलीसाठी आयुर्वेद !

आजच्या धावपळीच्या जीवनात आरोग्याचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. त्यामुळे सध्या आयुर्वेदाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आयुर्वेदामध्ये व्यक्तिला आजार झाल्यास बरा करणेसाठी जसे उपाय आहेत. तसेच आजार होऊच नये म्हणून सविस्तर मार्गदर्शन करून उपाय सुचविलेले आहेत. विकसित देशाकडे होणारी आपल्या देशाची वाटचाल प्रशंसनीय असली, तरी देशातील आरोग्यविषयक समस्यांचे वाढत असलेले प्रमाण देशाच्या प्रगतीत अडथळा बनत आहे. मधुमेह, हृदयविकार, कर्करोग, दमा, वंध्यत्व, हाडांचे आजार आदी व्याधी झपाट्याने वाढत आहेत. आयुर्वेदिक पद्धतीने उपचार करून वेळ लागला तरी रोग मुळापासून नष्ट करता येतो. त्यामुळे सामान्य माणसाला कमी खर्चाचे, दुष्परिणाम न होणारे असे आयुर्वेदशास्त्र विश्वसनीय वाटते. धकाधकीच्या जीवनात निरोगी राहून ताणतणावांना सामोरे जाण्यासाठी चांगली जीवनशैली अनुसरणे आवश्यक असून, त्यासाठी आयुर्वेदशास्त्रातील दिनचर्या, ऋतूचर्या, पंचकर्म आदी संकल्पना समजून घेऊन त्यांचा आपल्या दैनंदिन जीवनात सुयोग्य वापर करणे म्हणजेच योग्य जीवनशैली अनुसरणे होय. म्हणूनच आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रातील संशोधनाचा योग्य वापर आणि आयुर्वेदाच्या मदतीने आपले व आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य निरामय आणि शतायुषी होऊ शकेल.

- अभिजित शशिकांत पिसे, चिपळूण, जि. रत्नागिरी

Rashtriya Sahara • 26 Dec • Ministry of Ayush

vanchit abadi ke liye swasthya seva tak pahuch mai juta aayush mantralay

7 • PG

147 • Sqcm

213322 • AVE

390K • Cir

Bottom Left

Delhi

वंचित आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में जुटा आयुष मंत्रालय

■ ज्ञानप्रकाश

नई दिल्ली। एसएनबी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हेल्थ फॉर ऑल के साथ ही अब आयुष फॉर ऑल यानी सभी के लिए आयुष की केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से पहल की है। समग्र स्वास्थ्य सेवा महानगरों, राज्यों और जिलास्तरीय, गांव, तालुका स्तर पर रहने वाले लोगों तक अपनी इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा नामक एक फिल्म श्रृंखला शुरू की है जिसमें राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तनकारी प्रभाव को चित्रित किया गया है। जो देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों सहित प्रत्येक नागरिक तक समान, किफायती और समग्र स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की सरकार की प्रतिवद्धता को रेखांकित करता है। डिजिटल आउटरीच माध्यमों की मदद लेगी।

आयुष स्वास्थ्य सेवा की

मजबूती : आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव कविता गर्ग के अनुसार राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम), एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के माध्यम से निवारक देखभाल को बढ़ावा देना और मुख्यधारा के सार्वजनिक

राष्ट्रीय आयुष मिशन पर फिल्म, हेल्थ फॉर आल के साथ ही अब आयुष फॉर आल

स्वास्थ्य में आयुष प्रणालियों को एकीकृत करना है। एनएएम शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आयुष शैक्षणिक संस्थानों के विकास पर भी जोर देता है। इसके अलावा, इस योजना ने 167 एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना का समर्थन किया है तथा 416 आयुष अस्पतालों और 5036 औषधालयों को उन्नत किया है। सह-स्थल पहलों से सालाना 2322

पीएचसी, 715 स्पीएचसी और 314 डीएच को लाभ हुआ है। हर साल 996 अस्पतालों और 12,405 औषधालयों को आवश्यक आयुष दवाइयों की आपूर्ति की गयी। एनएएम ने 16 नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों को भी समर्थन दिया और 112 अन्य को उन्नत किया। इसके अतिरिक्त, 3883 योग कल्याण केंद्र, 1055 आयुष ग्राम और 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) स्थापित किए गए, जिससे देश भर में समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

आमजनों तक स्वदेशी पद्धति की पहुंच

केंद्रीय आयुष सचिव राजेश वैद्य के अनुसार राष्ट्रीय आयुष मिशन ने पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर सुलभ और लागत प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाया है। यह फिल्म श्रृंखला हमारी पहलों के बारे में जानकारी को जनता तक आसानी से पहुंचाने की दिशा में एक कदम है, जो पूरे देश में बीमारी के बोझ को कम करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करती है।

Online Coverage

No	Portal Name	Headline (Incorporated with URL)	Reach
1.	Dainik Bhaskar	सवाई माधोपुर व गंगापुर जिले के 23 आयुर्वेदिक औषधालयों की होगी मरम्मत, प्रत्येक औ...	66.5M
2.	Dainik Bhaskar	आयुष शिविर में 200 से अधिक मरीजों को मिला लाभ	66.5M
3.	Dainik Bhaskar	विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में वैद्य राजवाड़े का किया गया सम्मान	66.5M
4.	Dainik Bhaskar	2 करोड़ रुपए की लागत से होगा बहरोड़ ब्लॉक आयुष अस्पताल का निर्माण	66.5M
5.	Dainik Bhaskar	प्रकृति परीक्षण अभियान: अब तक 2 लाख से अधिक लोगों ने 'शरीर की प्रकृति' के बारे म...	66.5M
6.	हिन्दुस्तान(Live Hindustan)	Two-Day Nature Testing Camp Organized by Lal Bahadur Shastri Ayurvedic Colle ge	64.8M
7.	News18 Hindi	Winter Health : टॉन्सिल की समस्या से हैं परेशान? अपनाएं ये रामबाण घरेलू इलाज, चु...	43.6M
8.	Asianet News	ഛായവനപ്താൽ പരസ്യം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്, പതഞ്ജലിക്ക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത് ഡാബ	43.1M
9.	Dailyhunt	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	18.6M
10.	Medical Dialogues	Ayush for All: National Ayush Mission empowering communities with accessible, a f...	16M
11.	Prokerala.com	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	13M
12.	MP Breaking News	AIIMS BHOPAL में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, स्वस्थ जीवनशैली और आयुष पद्धतियो...	11.3M
13.	New Indian Express	Vedanta's "Swarna Prashan" drive covers 17k students	6.7M
14.	Janta Se Rishta	नवा रायपुर प्रीमियर लीग में जबरदस्त उत्साह	3.8M
15.	Janta Se Rishta	Odisha: वेदांता के 'स्वर्ण प्राशन' अभियान में 17 हजार छात्र शामिल	3.8M
16.	Janta Se Rishta	Odisha: वेदांता के "स्वर्ण प्राशन" अभियान में 17 हजार छात्र शामिल	3.8M
17.	Daijiworld	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	3M
18.	Dainik Bhaskar	स्वास्थ्य/चिकित्सा: स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से समुदायों को सशक्त बना रहा राष्ट्र...	926.1K
19.	Inext Live	आयुर्वेद को अपनाने के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित	641.5K
20.	અગ્રેસર ઓનલાઈન ગુજરાતી ન્યુઝ પોર્ટલ (Leading Gujarati news portal)	પોરબંદર જેસીઆઈના નવા હોટેલોની શપથવિધિ	633.8K
21.	Social News XYZ	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	415.2K
22.	Samachar Nama	स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से समुदायों को सशक्त बना रहा राष्ट्रीय आयुष मिशन	195.8K

23.	Sakshipost EN	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable health...	160.8K
24.	BizzBuzz	Min Releases Film On National Ayush Mission	125.6K
25.	HT Syndication	Vedanta's "Swarna Prashan" initiative covers over 17,000 children in Odisha	119.8K
26.	Lokmatimes.com	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable health...	94.3K
27.	Dainik Navajyoti	केन्द्रीय आयुष मंत्रालय बेहतर स्वास्थ्य को वात- पित्त और कफ की प्रकृति पता लगाने...	89.8K
28.	Loktej	भुवनेश्वर: वेदांत एल्युमिनियम का "स्वर्ण प्राशन" कार्यक्रम ओडिशा में 17,000 बच्...	73.2K
29.	Daily Chhattisgarh	सूचना आयोग, ग्रामोद्योग और उद्योग विभाग ने अपने अपने मैच जीते	72K
30.	Daily Chhattisgarh	स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से समुदायों को सशक्त बना रहा राष्ट्रीय आयुष मिशन	72K
31.	The News Room	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable health...	62.3K
32.	Bhaskar Live	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable health...	46.5K
33.	Visionnewsservice	ग्रामोद्योग विभाग ने मंत्रालय सुरक्षा को हराकर किया बड़ा उलटफेर विभागाध्यक्ष राज...	36.8K
34.	Press Note	Successful Organizing of the National Nature Test Campaign	33K
35.	saachibaat.com	Today's Top News – 25 December 2024	29.4K
36.	NWNNews24	नवा रायपुर प्रीमियर लीग: राज्य सूचना आयोग, आयुष विभाग, ग्रामोद्योग विभाग व उद्यो...	23K
37.	Tennews.in	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable health...	9.1K
38.	Divya Bharat	Foundation day of Ayush hospital celebrated in Lucknow. Foundation day of AYU SH ...	8.9K
39.	Tvi News	प्रयागराज :कुंभ के हर सेक्टर में लगेगा एक्यूप्रेसर का कैम्प	4.4K
40.	Asalbaat	राज्य सूचना आयोग ने भू-अभिलेख को विभाग दी शिकस्त,ग्रामोद्योग विभाग ने मंत्रालय स...	N/A
41.	prativad	देश का प्रकृति परीक्षण अभियान: स्वस्थ जीवनशैली और आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने ...	N/A
42.	Reh News	AIIMS BHOPAL में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, स्वस्थ जीवनशैली और आयुष पद्धतियो...	N/A
43.	India News Calling	NEWS RECEIVED FROM DPRO HAMIRPUR, CHAMBA , SOLAN	N/A
44.	Drug Today Medical Times	Ayush Ministry Unveils Film Series Showcasing National Ayush Mission's Transfo r...	N/A
45.	Kadwaghut	CG : नवा रायपुर प्रीमियर लीग में जबरदस्त उत्साह...	N/A
46.	छत्तीसगढ़ राज्य	नवा रायपुर प्रीमियर लीग 2024: राज्य सूचना आयोग ने भू-अभिलेख को विभाग दी शिकस्त	N/A
47.	OB News	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable health...	N/A

48.	Vishvatimes	स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से समुदायों को सशक्त बना रहा राष्ट्रीय आयुष मिशन	N/A
49.	Arya TV	देश का प्रकृति परीक्षण: आयुष मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य और कल्या...	N/A
50.	Asalbaat	स्वरूपानंद महाविद्यालय में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, संकल्प स्वास्थ्य का, आध...	N/A
51.	The Mobi World	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	N/A
52.	Himachal Now News	आयुर्वेद का जादू 'प्रकृति परीक्षण' / आयुर्वेद के 'प्रकृति परीक्षण' से जान सकते...	N/A
53.	Awaaz Hindi	राष्ट्रीय आयुष मिशन सुलभ एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से समुदायों को सशक्त...	N/A
54.	jansansar	वेदांत एल्युमिनियम का 'स्वर्ण प्राशन' कार्यक्रम ओडिशा में 17,000 बच्चों तक पहुंच...	N/A
55.	Indias News	स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से समुदायों को सशक्त बना रहा राष्ट्रीय आयुष मिशन	N/A
56.	Khair News	स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से समुदायों को सशक्त बना रहा राष्ट्रीय आयुष मिशन	N/A
57.	Reporter Post	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	N/A
58.	Vishva Times	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	N/A
59.	Tripura Times	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	N/A
60.	Thip Media	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	N/A
61.	General	SOUKYA Embarks on Global Journey with INR 220 Cr Investment in Portugal	N/A
62.	Newspoint	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	N/A
63.	India Online Mart	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	N/A
64.	International Business Times	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	N/A
65.	Sanj Samachar	अमरेली स्वामीनारायण मंदिर में प्रकृति परीक्षण कार्यक्रम आयोजित	N/A
66.	Today India News	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	N/A
67.	Almora Today	उत्तराखण्ड: 'देश का प्रकृति परीक्षण' अभियान! चमोली पहुंची टीम, तैयार किया जा रहा...	N/A
68.	चमोली न्यूज़	उत्तराखण्ड: 'देश का प्रकृति परीक्षण' अभियान! चमोली पहुंची टीम, तैयार किया जा रहा...	N/A
69.	Suryaa	National Ayush Mission empowering communities with accessible, affordable healt h...	N/A
70.	Epilogue	Ministry of Ayush Launches Film Series on National Ayush Mission: Highlights Tra ...	N/A

71.	BizNextIndia	Vedanta's "Swarna Prashan" healthcare initiative covers over 17,000 school chil...	N/A
72.	Mid Day Online	Vedanta's 'Swarna Prashan' drive covers 17k students	N/A
73.	Mid Day Online	Vedanta's 'Swarna Prashan' drive covers 17k students	N/A
74.	Moomal Art News	पीडब्ल्यूडी के सैकड़ों कार्मिकों का हुआ प्रकृति परीक्षण	N/A
75.	Samay Jagat	पीडब्ल्यूडी के सैकड़ों कार्मिकों का हुआ प्रकृति परीक्षण	N/A
76.	The Voice Tv	आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन पर फिल्म श्रृंखला शुरू की: परिवर्तनकारी प्र...	N/A
77.	Avadhnama	जनपद में योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला मृदुल को योग सम्मान	N/A
78.	Observer Voice	Ministry of Ayush Launches Film Series – Ayush for All	N/A
79.	Sambad	ଓଡ଼ିଶାର ୧୭ ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା "ସ୍ୱା ଗୁଣପ୍ରାଶନ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ	N/A
80.	True Hunt	Ministry of Ayush Launches Film Series on National Ayush Mission	N/A
81.	Global Triumph	SOUKYA Embarks on Global Journey with INR 220 Cr Investment in Portugal De c 24, ...	N/A
82.	General	JU 2024 National Art Exhibition and Camp Kicks Off at Jain University	N/A
83.	OB News	SOUKYA Embarks on Global Journey with INR 220 Cr Investment in Portugal	N/A